



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 965) पटना, बुधवार, 26 अगस्त 2015

सं0 5 नि0गो0वि0 (5) 04/2014 – 311 नि0गो0

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प

24 अगस्त 2015

विषय:—विभागीय संकल्प—5 नि0गो0वि0 (5) 04/2014 –830 नि0गो0 दिनांक 08.12.2014 को वापस लिये जाने के संबंध में ।

डा0 कौशल कुसुम, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद) के द्वारा अनुसूचित जाति के पासी जाति के फर्जी जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर प्राप्त की गयी नियुक्ति (सरकारी सेवा में प्राप्त की गयी नियुक्ति) को विभागीय संकल्प—830 नि0गो0, दिनांक 08.12.2014 के द्वारा रद्द किया गया ।

2. इस संबंध में डा0 कुसुम के द्वारा दायर एल0पी0ए0 संख्या— 309/2010 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—17.06.2014 को अंतरिम आदेश पारित किया गया ।

उक्त आदेश के अनुपालनार्थ डा0 कुसुम द्वारा अवमाननावाद संख्या— 104/2015 दायर किया गया । अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.04.2015 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श हेतु अपेक्षा की गयी । तदनुसार विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श दिनांक 22.04.2015 एवं सरकारी अधिवक्ता संख्या—1, पटना उच्च न्यायालय, पटना के फैक्स पत्रांक—12399 दिनांक 08.07.2015 के आलोक में पुनः विद्वान महाधिवक्ता का विधिक परामर्श प्राप्त किया गया । विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प—830 नि0गो0, दिनांक 08.12.2014 को इस शर्त के साथ वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है कि एल0पी0ए0 संख्या—309/2010 एवं एम0जे0सी0 संख्या—104/2015 मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित आदेश से यह संकल्प प्रभावित होगा ।

3. उक्त निर्णय एवं तदनुसार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प-830 नि०गो०, दिनांक 08.12.2014 को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि एल०पी०ए० संख्या-309/2010 एवं एम०जे०सी० संख्या-104/2015 मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित आदेश के अनुसार यह संकल्प प्रभावित होगा।

4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 965-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>